



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, नवम्बर 13—नवम्बर 19, 2005, शनिवार/कार्तिक 22—कार्तिक 28, 1927
No. 22] NEW DELHI, NOVEMBER 13—NOVEMBER 19, 2005, SATURDAY/KARTIKA 22—KARTIKA 28, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2005

का.नि.आ. 121.—केन्द्रीय सरकार, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सेना में आफिसरों के रूप में महिलाओं की नियुक्ति की स्कीम की विधिमाम्यता को बढ़ाती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 11, तारीख 15 फरवरी, 1992 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) महिला आफिसरों की अवधि का विस्तार—अधिसूचना सं. का.नि.आ. 11, तारीख 15 फरवरी, 1992, का.नि.आ. 1, तारीख 23 जनवरी, 1993 और का.नि.आ. 10(अ), तारीख 12 दिसंबर, 1996 द्वारा आरंभ की गई महिला विशेष प्रवेश स्कीम (आफिसर्स) के अधीन भर्ती, महिला आफिसरों की अवधि वर्ष 1997 से पांच वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।

(2) अल्पकालिक सेवा कमीशन आफिसरों की अवधि का विस्तार—अल्पकालिक सेवा कमीशन आफिसर (पुरुष आफिसरों के लिए) और महिला विशेष प्रवेश स्कीम (आफिसर्स) की अवधि चौदह वर्ष तक विस्तारित की जाएगी।

(3) महिला विशेष प्रवेश स्कीम का लागू होना समाप्त हो जाएगा और का.नि.आ. 11, तारीख 15 फरवरी, 1992, का.नि.आ. 1, तारीख 23 जनवरी, 1993 और का.नि.आ. 10(अ), तारीख 12 दिसंबर, 1996 द्वारा अधिसूचित कोर/सेवा में प्रवेश अल्पकालिक सेवा कमीशन आफिसरों के माध्यम से महिला आफिसरों को भर्ती किया जाएगा।

(4) स्थायी कमीशन आफिसरों को यथा लागू अधिष्ठायी प्रोन्नतियां अल्पकालिक सेवा कमीशन आफिसर (पुरुष और महिला) को विस्तारित की जाएंगी।

[फा. सं. 12(1)/2004-डी(एजी)]

जोस थामस, अवर सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. 11, तारीख 15 फरवरी, 1992, द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्वोक्त निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई—

(1) का.नि.आ. 1, तारीख 23 जनवरी, 1993।

(2) का.नि.आ. 10(अ), तारीख 12 दिसंबर, 1996।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th October, 2005

S.R.O. 121.— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby extends the validity of the scheme of appointment of Women as Officers in the Indian Army and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence *vide* number S.R.O. 11 dated the 15th February, 1992, namely :—

(1) Extension of the tenure of Women Officers—The tenure of Women Officers inducted under Women Special Entry Scheme (Officers) introduced by notifications *vide* numbers S.R.O. 11, dated the 15th February, 1992, S.R.O. 1, dated the 23rd January, 1993 and S.R.O. 10(E) dated the 12th December, 1996, shall be extended by five years from 1997.

(2) Extension of tenure of Short Service Commission Officers—The tenure of Short Service Commission Officers (for male officers) and Women Special Entry Scheme (Officers) shall be extended upto fourteen years.

(3) Women Special Entry Scheme shall cease to apply and Women officers shall be inducted through Short Service Commission officers entry in the Corps/Service notified *vide* numbers S.R.O. 11, dated the 15th February, 1992, S.R.O. 1, dated the 23rd January, 1993 and S.R.O. 10(E) dated the 12th December, 1996.

(4) Substantive promotions shall be extended to Short Service Commission Officers (Men and Women) as applicable to Permanent Commission Officers.

[File No. 12(1)/2004-D(AG)]

JOSE THOMAS, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India Part II Section 4 *vide* No. S.R.O. 11 dated the 15th February, 1992 and subsequently amended by—

(1) S.R.O. 1 dated 23rd January, 1993.

(2) S.R.O. 10(E) dated the 12th December, 1996.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2005

का.नि.आ. 122.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय के रडार और संसूचना परियोजना कार्यालय (परियोजना निदेशक और सदस्य सचिव, रडार और संसूचना बोर्ड) भर्ती नियम जो संख्यांक का.नि.आ. 288 तारीख 5 नवम्बर, 1983 द्वारा अधिसूचित किए गए थे, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है विखंडन करता है।

[फा. सं. ए/16811/सीएओ/आर-2]

अर्चना राय, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

New Delhi, the 8th November, 2005

S.R.O. 122.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the Ministry of Defence, Radar and Communications Project Office (Project Director and Member Secretary, Radar and Communications Board) Recruitment Rules notified *vide* number SRO 288, dated the 5th November, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[File No. A/16811/CAO/R-II]

ARCHANA RAI, Deputy Chief Administrative Officer.

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2005

का.नि.आ. 123.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना समूह 'ग' (अनौद्योगिक) पद भर्ती नियम, 1989 जहां तक उनका संबंध सेना की निम्नतर विरचनाओं में सिविलियन सैनिक परिवहन ड्राइवर श्रेणी-1 और श्रेणी -II के पद से है को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सेना सिविलियन मोटर ड्राइवर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम मुख्य इंजिनियर की शाखा के पदों को छोड़कर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	417* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	5000-150- 8000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

11	12				
प्रोन्नति द्वारा	ऐसा सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी I जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1 : प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक कमान या कोर के संबंध में पृथक रूप से विचार किया जाएगा और यथा अवधारित उनकी ज्येष्ठता के अनुसार कमान या कोर के भीतर पोषक श्रेणी के पात्र कर्मचारियों में से स्वतंत्र यूनिट और प्रोन्नति दी जाएगी। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।				
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा				
13	14				
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।				
1. संबद्ध यूनिट/स्थापन के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक/ जज एडवोकेट जनरल/जनरल आफिसर कमांडिंग/कमांडिंग आफिसर/ निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/कमांडेंट/ आफिसर इन-चार्ज/आफिसर कमांडिंग/प्रधान/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक/कर्नल प्रशासन —अध्यक्ष					
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी —सदस्य					
3. किसी असंबद्ध विभाग से केन्द्रीय सरकार का कोई समूह 'क' अधिकारी —सदस्य					
1	2	3	4	5	6
2. सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-I	2906 * (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4500-125- 7000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता।
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

11

12

प्रोन्नति द्वारा

ऐसे सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने निम्नलिखित में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो:—

(क) अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ना ;

(ख) यातायात नियमों और विनियमों का ज्ञान ;

(ग) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्यकरण का ज्ञान और त्रुटियों का पता लगाने तथा छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने की योग्यता;

(घ) कार्बुरेटर, प्लग आदि को साफ करना।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक कमान या कोर के संबंध में पृथक् रूप से विचार किया जाएगा और यथा अवधारित उनकी ज्येष्ठता के अनुसार कमान या कोर के भीतर पोषक श्रेणी के पात्र कर्मचारियों में से स्वतंत्र यूनिट और प्रोन्नति दी जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसे अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए)
निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता

- संबद्ध यूनिट/स्थापन के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक/
जज एडवोकेट जनरल/जनरल आफिसर कमांडिंग/कमांडिंग आफिसर/
निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/कमांडेंट/
आफिसर इन-चार्ज/आफिसर कमांडिंग/प्रधान/गुप कमांडर/निरीक्षक/कर्नल
प्रशासन —अध्यक्ष
- ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी —सदस्य
- किसी असंबद्ध विभाग से लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर के रैंक
का या सदृश पद या रैंक धारण करने वाला कोई अधिकारी —सदस्य

1	2	3	4	5	6
3. सिविलियन मोटर ड्राइवर श्रेणी-II	2490* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100- 6000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

3217 GI/05-2

11	12				
लागू नहीं होता	ऐसे सिविलियन मोटर ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिसने उस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने निम्नलिखित में व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो:— (1) अंग्रेजी संख्याओं और अंकों को पढ़ना ; (2) यातायात नियमों और विनियमों का ज्ञान ; (3) त्रुटियों का पता लगाने और छोटी-मोटी मरम्मत करने की योग्यता। (4) पहिए बदलने और यथोचित हवा भरने की योग्यता। टिप्पण 1 : प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक कमान या कोर के संबंध में पृथक् रूप से विचार किया जाएगा और यथा अवधारित उनकी ज्येष्ठता के अनुसार कमान या कोर के भीतर पोषक श्रेणी के पात्र कर्मचारियों में से स्वतंत्र यूनिट और प्रोन्नति दी जाएगी। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है				
13	14				
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. संबद्ध यूनिट/स्थापन के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक/ जज एडवोकेट जनरल/जनरल आफिसर कमांडिंग/कमांडिंग आफिसर/ निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/कमांडेंट/ आफिसर इन-चार्ज/आफिसर कमांडिंग/प्रधान/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक/कर्नल प्रशासन —अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी —सदस्य 3. किसी असंबद्ध विभाग से लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर के रैंक का या सदृश पद या रैंक धारण करने वाला कोई अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता				
1	2	3	4	5	6
4. सिविलियन मोटर ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	2495* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	3050-75- 3950-80- 4590 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18-27 वर्ष टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : भारी यानों के लिए सिविलियन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए और ऐसे यानों को चलाने का दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय : मेट्रीकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष
रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।			
11	12		
सीधी भर्ती। टिप्पण 1 : प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक कमान या कोर के संबंध में पृथक् रूप से विचार किया जाएगा और यथा अवधारित उनकी ज्येष्ठता के अनुसार कमान या कोर के भीतर पोषक श्रेणी के पात्र कर्मचारियों में से स्वतंत्र यूनिट और प्रोन्नति दी जाएगी।		लागू नहीं होता	
13	14		
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—		लागू नहीं होता	
1. संबद्ध यूनिट/स्थापन के महानिदेशक/अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक/जज एडवोकेट जनरल/जनरल आफिसर कमांडिंग/कमांडिंग आफिसर/निदेशक/उप निदेशक/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक/कमांडेंट/आफिसर इन-चार्ज/आफिसर कमांडिंग/प्रधान/ग्रुप कमांडर/निरीक्षक/कर्नल प्रशासन —अध्यक्ष			
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी —सदस्य			
3. किसी असंबद्ध विभाग से लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर के रैंक का या सदृश पद या रैंक धारण करने वाला कोई अधिकारी —सदस्य			

[फा. सं. 15324/एजी/एम पी 4(सिवि)(ए)840/आरआर/05/0/डी(अपाइंटमेंट्स)]

आर.बी. जोशी, अपर सचिव

New Delhi, the 9th November, 2005

S.R.O. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Army Group 'C' (Non-Industrial) posts Recruitment Rules, 1989 in so far as they relate to the post of Civilian Military Transport Driver Grade I and Grade II in the lower formations of Army, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Army Civilian Motor Drivers Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules excluding the posts in the Engineer-in-Chief's Branch.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 admissible	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Civilian Motor Driver (Special Grade).	417* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000.	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment, or by promotion or by absorption or deputation and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12

By promotion

Civilian Motor Driver Grade I with three years of regular service in the grade.

Note 1: For the purpose of promotion, each Command or Corps shall be considered separately and independent Unit and promotion shall be made from eligible employees of the feeder grade within the Command or Corps according to their seniority as determined.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14

Group 'C' Departmental Promotion Committee:
(for promotion and confirmation) consisting of:—

Not applicable.

- (i) Director General/Additional Director General/Deputy Director General/General Officer Commanding/Judge Advocate General Commanding Officer/Director/Joint Director/Deputy Director/Assistant Director/Commandant/Officer-in-Charge/Officer Commanding/Principal/Group Commander/Inspector/Colonel Administration of the concerned Units/Establishments. —Chairman
- (ii) Senior Administrative Officer/Establishment Officer —Member
- (iii) A Group 'A' officer of the Central Government from an unconnected Department —Member

3217 GI/05-3

1	2	3	4	5	6	7
2. Civilian Motor Driver Grade-I	2906* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 4500-125-7000.	Non-selection	Not applicable	Not applicable
8	9		10			
Not applicable	Not applicable		Not applicable			
11	12					
By promotion.	Civilian Motor Driver Grade II with Six years of regular service in the grade having passed trade test in the following :— (a) reading of English numerals and figures; (b) knowledge of traffic rules and regulations. (c) knowledge of petrol and diesel engine working, and ability to locate faults and rectify minor running defects. (d) clearing of Carburettor, plug etc. Note 1: For the purpose of promotion, each Command or Corps shall be considered separately and independent Unit and promotion shall be made from eligible employees of the feeder grade within the Command or Corps according to their seniority as determined. Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their junior who have already completed such qualifying or eligibility service.					
13			14			
Group 'C' Departmental Promotion Committee : (for promotion and confirmation) consisting of :—					Not applicable.	
1. Director General/Additional Director General/Deputy Director General/General Officer Commanding/Judge Advocate General/Commanding Officer/Director/Joint Director/Deputy Director/Assistant Director/Commandant /Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/Inspector/Colonel Administration of the concerned Units/Establishments					—Chairman	
2. Senior Administrative Officer or Establishment Officer					—Member	
3. An officer of the rank of Lieutenant Col/Major/holding analogous post or rank from an unconnected Department					—Member	

1	2	3	4	5	6	7
3. Civilian Motor Driver Grade-II.	2490* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-selection	Not applicable	Not applicable
8	9			10		
Not applicable	Not applicable			Not applicable		
11	12					
Not applicable	<p>Civilian Motor Driver (Ordinary Grade) with nine years of regular service in the grade having passed trade test in the following :—</p> <ol style="list-style-type: none">1. Reading of English numerals and figures;2. Knowledge of traffic rules and regulations.3. Ability to locate faults and carry out minor running repairs.4. Ability to change wheels and correctly inflate tyres. <p>Note 1: For the purpose of promotion, each Command or Corps shall be considered separately and independent Unit and promotion shall be made from eligible employees of the feeder grade within the Command or Corps according to their seniority as determined.</p> <p>Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>					
13	14					
Group 'C' Departmental Promotion Committee : (for promotion and confirmation) consisting of :—				Not applicable.		
1. Director General/Additional Director General/Deputy Director General/General Officer Commanding/Judge Advocate General/Commanding Officer/Director/Joint Director/Deputy Director/Assistant Director/Commandant/Officer-in-Charge/ Officer Commanding/Principal/Group Commander/Inspector/Colonel Administration of the concerned Units/Establishments.				—Chairman		
2. Senior Administrative Officer or Establishment Officer				—Member		
3. An officer of the rank of Lieutenant Col/Major/holding analogous post or rank from an unconnected Department				—Member		

1	2	3	4	5	6
4. Civilian Motor Driver (Ordinary Grade.)	2495* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590.	No applicable	Not applicable
7	8	9	10		
18—27 years. Note :— The crucial date for determining the age limit for direct recruits shall in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Sub-division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.	Essential : Must possess the civilian driving licence for heavy vehicles and have two years experience of driving such vehicles. Desirable : Matriculation or equivalent.	Not applicable	Two years		
11	12				
Direct recruitment. Note : For the purpose of promotion, each Command or Corps shall be considered separately and independent Unit and promotion shall be made from eligible employees of the feeder grade within the Command or Corps according to their seniority as determined.	Not applicable.				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee : (for confirmation) consisting of :— 1. Director General/Additional Director General/Deputy Director General/General Officer Commanding/Judge Advocate General/Commanding Officer/Director/Joint Director/Deputy Director/Assistant Director/Commandant/Officer-in-Charge/Officer Commanding/Principal/Group Commander/Inspector/Colonel Administration of the concerned Units/Establishments. 2. Senior Administrative Officer or Establishment Officer 3. An officer of the rank of Lieutenant Col/Major/holding analogous post or rank from an unconnected Department	Not applicable. —Chairman —Member —Member				

[F. No. 15324/AG/MP 4(Civ)(a) 840/RR/05/D/Appts]

R.B. JOSHI, Under Secy.